

DAILY MPPSC CAPSULE

One liners –

- विश्व 10,000 मीटर चैंपियन सर मो फराह को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2017 चुना गया है। 2002 में पॉला रेडक्लिफ के बाद से वे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पुरस्कार जीतने वाले पहले लंबी दूरी के धावक बन गए हैं। चार बार के ओलंपिक चैंपियन 34 वर्षीय फराह ने अगस्त में लंदन में अपना तीसरा लगातार विश्व 10,000 मीटर स्वर्ण पदक जीता था।
- अमेरिकी नियामकों ने 14 दिसम्बर 2017 को नेट न्यूट्रैलिटी कानून को वापस ले लिया है, जिसमें इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए सभी तरह की सामग्री को समान रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य था। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन (एफसीसी) ने रिपब्लिकन द्वारा नियुक्त भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजित पई के प्रस्ताव को वोटिंग में 3-2 से स्वीकार कर लिया।
- भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खत्म हुई तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में करियर के तीसरे दोहरे शतक के दम पर आईसीसी की एकदिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में दो पायदान के सुधार के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गये।
- चालू वित्त वर्ष में पहली बार भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने के मामले में इराक सउदी अरब से आगे निकल गया है। सउदी अरब परंपरागत रूप से भारत का शीर्ष तेल स्रोत रहा है लेकिन 2017-18 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में, इराक ने 25.8 मिलियन टन (एमटी) तेल की आपूर्ति कर शीर्ष स्थान हासिल किया।
- गुजरात विधान सभा चुनावों में 18 दिसम्बर 2017 को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने लगातार छठी बार जीत दर्ज की है। गुजरात विधानसभा चुनाव की कुल 182 सीटों में से बीजेपी को 99 जबकि कांग्रेस को 77 सीटें हासिल हुई हैं। इनके अलावा 1 सीट एनसीपी, 2 बीटीपी और 3 निर्दलीय के खाते में गई हैं।
- सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा, जिन्होंने पहला स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड जीता, ने कहा कि दिवंगत अभिनेत्री उनके मुकाबले बेहतर अभिनेत्री थीं। 16 दिसंबर को सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए रेखा को पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) और मारुति सुजुकी इंडिया लि. ने 18 दिसम्बर 2017 को एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कौशल भारत मिशन के तहत युवाओं को ऑटोमोबाइल एवं विनिर्माण उद्योग से संबंधित उच्च रोजगार संभावनाएं वाले कारोबार मुहैया कराए जा सकें।
- वाशिंगटन राज्य की निवासी श्री सैनी को मिस इंडिया संयुक्त राज्य अमेरिका 2017 का ताज पहनाया गया है। सौंदर्य प्रतियोगिता में, फ्लोरिडा की कैसर सर्जन कविता मल्होत्रा पट्टानी को मिस इंडिया संयुक्त राज्य अमेरिका 2017 घोषित किया गया। न्यू जर्सी से 17 वर्षीय स्वपना मन्नाम को मिस टीन इंडिया संयुक्त राज्य अमेरिका 2017 ताज पहनाया गया।

Sports —

- अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं ? — खेल-कूद
- D. C. M ट्रॉफी का सम्बन्ध किस खेल से है ? — फुटबॉल
- माइकल फेलप्स किस खेल से सम्बन्धित हैं ? — तैराकी
- अर्जुन पुरस्कार कब प्रारम्भ हुआ ? — 1961
- सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है ? — क्रिकेट
- श्री सेकण्ड्स किस खेल से सम्बन्धित हैं ? — बास्केटबॉल
- स्पर्श रेखा किस खेल से सम्बन्धित हैं ? — कबड्डी
- भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलम्पिक खेलों (2012) में रजत पदक प्राप्त किया ? — विजय कुमार
- किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेलरत्न सम्मान प्रदान किया गया है ? — योगेश्वर दत्त
- कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है ? — आइस हॉकी
- पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ ? — मणिपुर
- भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारम्भ किया ? — तुर्क
- बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ? — 9
- वालीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ? — 6
- निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं ? — कार्फबॉल
- साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है ? — वेलोड्रम



**OUR
BRANCHES**

**INDORE -
PALASIYA**
Cont. - 099779-44914
BHANWARKUA
Cont. - 083497-59425

**BHOPAL -
M.P.
NAGAR**
Cont. - 078693-74842

HARDA
Opp. GP Mall
Bus Stand Road
Cont. - 099263-93771

HOSHANGABAD -
Meenakshi Chowk
Above ICICI Bank
Cont. - 078693-74873

KHANDWA -
Grover Plaza
Anand Nagar
Cont. - 099777-02933

GUNA -
Kanha Heights
Above IO Bank
Cont. - 088892-89335

BILASPUR -
Amar Complex
Near Gandhi Chowk
Cont. - 093003-80700

REWA -
Ramagovind Palace
Sirmour Chowk
Cont. - 090396-52859

PINNACLE CAREER INSTITUTE For Further Details Please Call Us On- 9039055453, 9977716716

Facebook: Pinnaclegareer institute

Website: www.pinnacle.edu.in H.O.: M.G.Road The Heritage 1st Floor, Indore